




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 249] नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 1980/ज्येष्ठ 28, 1902
No. 249] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 1980/JYAJSTHA 28, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 1980

आयकर

क्रा. आ. 434(अ) .—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम,
1961 (1961 का 43) की धारा 285 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम
बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (चतुर्थ संशोधन) नियम
1980 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 6(घ) के उप-नियम (2) में,—

(1) खण्ड (ख) में,—

(1) उप-खण्ड (1) में, प्रविष्टि “100 रुपये प्रति दिन या उसका भाग” के स्थान पर “150 रुपये प्रति दिन या उसका भाग” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) उप-खण्ड (2) में, प्रविष्टि “50 रुपये प्रतिदिन या उसका भाग” के स्थान पर “75 रुपये प्रति दिन या उसका भाग” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) प्रथम परन्तुक में, “पचास प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “तीस सही एक बटा तीन प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) परिशिष्ट 1 के भाग 1 में, उन दलों की सारणी में जिन पर अव-क्षयण अनुज्ञेय है, स्तम्भ 1 में “3 मशीनरी और संयंत्र (जो पोट नहीं हैं)” शीर्ष के नीचे “(2) विशेष दरे” उप-शीर्ष के नीचे, समूह ग में, मद (6) के पञ्चास निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(क) इलेक्ट्रानिक माल या उसके संघटकों के विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली मशीनरी” ।

[सं. 3476/फा. सं. 41/एफ बी/80-टी पी एल]

एस. एन. शेंडे, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 1980

INCOME-TAX

S.O. 434(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(a) in rule 6D, in sub-rule (2),—

(1) in clause (b)—

(i) in sub-clause (i), for the entry "Rs. 100 per day or part thereof", the entry "Rs. 150 per day or part thereof" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (ii), for the entry "Rs. 50 per day or part thereof", the entry "Rs. 75 per day or part thereof" shall be substituted;

(2) in the first proviso, for the words, "fifty per cent", the words "thirty-three and one-third per cent" shall be substituted;

(b) in Part I of Appendix I, in the Table of rates at which depreciation is admissible, in column 1, under the heading "III. Machinery and Plant (not being a ship)", under the sub-heading "(ii) Special rates", in Group C, after item (6), the following item shall be inserted, namely:—

"(6A). Machinery used in the manufacture of electronic goods or components."

[No. 3476/F. No. 41/FB/80-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.

